

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 79 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी 2010—पौष 25, शक 1931

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2010

फा. क्र.-17(ई)-133-09-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 सम्पन्न कराने के लिए जिला बालाघाट में दिनांक 16 जनवरी 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक, की अवधि के लिये संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 का कार्य सम्पादित कराने के लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. जे. खान, सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर (स्थानीय निर्वाचन) बालाघाट

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2009-10 हेतु विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त किये जाने बाबत सूची:—

क्रमांक (1)	नाम अधिकारी (2)	पदनाम (3)
1	श्री हेमन्त खरे	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण, बालाघाट
2	श्री पी. सी. महाजन	कार्यपालन यंत्री, बैनगंगा संभाग, बालाघाट
3	श्री डी. के. जैसवाल	कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना, बालाघाट
4	श्री एस. एस. जादौन	कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना कटंगी
5	श्री एच. एल. बागडे	अधीक्षक, भू-अभिलेख, बालाघाट
6	श्री सी. एम. मडावी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, बालाघाट
7	श्री प्रकाश सिंह पन्डे	उप संचालक, खनिज बालाघाट
8	श्री शशांक शुक्ला, खनिज निरीक्षक, बालाघाट	खनिज निरीक्षक, बालाघाट.

## पंचायत निर्वाचन 2009-10 हेतु नियुक्त जोनल अधिकारियों की सूची

क्र. (1)	विकासखण्ड (2)	मतदान तिथि (3)	जोन क्रमांक (4)	जोनल अधिकारी का नाम (5)
1	किरनापुर	18-1-2010	1	श्री सैयद मजहर अली, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, किरनापुर.
			2	श्री सी. के. तिवारी, वन क्षेत्रपाल, वन परिक्षेत्र, किरनापुर
			3	श्री टी. सी. बिसेन, उपवन क्षेत्रपाल वन परिक्षेत्र, किरनापुर
			4	श्री आर. एस. रघुवंशी, उपवन क्षेत्रपाल वन परिक्षेत्र, किरनापुर
			5	डा. डी. एस. गौतम, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि अनुसंधान केन्द्र, बडगांव.
			6	डॉ. एम. ए. खान, कार्यक्रम समन्वयक कृषि अनुसंधान केन्द्र, बडगांव
			7	श्री आर. पी., कुमार अ.वि.अ., सि.वि.अनु. क्र. 9 एवं 13 हट्टा, बालाघाट
			8	श्री बी. पी. धुर्वे, अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, किरनापुर
			9	श्री डी. बिसेन, प्रशिक्षण अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, किरनापुर
			10	श्री जी. मेश्राम, उपयंत्री कार्या. अ.वि.अ दुटी एल.बी.सी. अनु क्र. 9 हट्टा.
			11	श्री आर. पी. पटले, उपयंत्री कार्या. अ.वि.अ दुटी एल.बी.सी. अनु क्र. 13 हट्टा.
			12	श्री व्हाय. आर. घोरमारे, उपयंत्री कार्या. अ.वि.अ दुटी एल.बी.सी. अनु क्र. 9 हट्टा.
			13	श्री आर. पी. अग्रवाल, उपयंत्री, कार्यालय अ.वि.अ दुटी, एलबीसी. अनु क्र. 13 हट्टा
			14	श्री व्ही. के. कुरील, उपयंत्री कार्या. अ.वि.अ दुटी एल.बी.सी. अनु क्र. 9 हट्टा.
2	लांजी	18-1-2010	1	श्री डी. डी. माने, उपयंत्री (लो.नि.वि.) लांजी
			2	श्री वी. पी. सिंह, सहा. प्रबंधक, प्र.म.ग्रा.स.प्रा. लांजी
			3	श्री मनोज लारोकर, परि. अधि. म. बा. वि. वि. लांजी
			4	श्री आर. आर. सोनवाने, सहा. प्राध्या. शा.कला महा. वि. लांजी
			5	श्री टी. आर. बेदरे, उपयंत्री. जल संसाधन विभाग, लांजी
			6	श्री एल. एस. इनवाती, अ. वि.अ. ग्रा. स. से. उपसंभाग लांजी
			7	श्री बी. एस. राजपूत, सहा. प्राध्या. शा. कला महा. वि., लांजी
			8	श्री एस. आर. धुर्वे, सहा. प्राध्या. शा. कला महा वि., लांजी
			9	श्री एच. एस. सरेयाम, अ. वि. अ., जल संसाधन विभाग, लांजी
			10	श्री एस. एन. अग्रवाल, उपयंत्री. जल संसाधन विभाग लांजी
			11	श्री एस. आर. नेवारे, अ.वि.अ. (लो.नि.वि.) लांजी
			12	श्री के. सी. उईके, वन क्षेत्रपाल, पश्चिम सा. लांजी
			13	श्री घनश्याम परते, पशु चिकित्सा सहायक संलग्न अधिकारी, लांजी
			14	श्री के. एल. नगरगढे, अ.वि.अ. लो.स्वा.यां., सेवा उपसंभाग लांजी
			15	श्री के. के. त्रिवेदी, अ.वि.अ. वन लांजी
3	बिरसा	18-1-2010	1	श्री अरूण नेमा, पशु चिकित्सा अधिकारी, बिरसा मो. 9425139177
			2	श्री डी. एस. तेकाम, प्र.वि.ख.अधि., बिरसा मो. 9993810982
			3	श्री यू. एल. परते, अ.वि.अ., बंजर नदी परियोजना शीर्ष दमोह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			4	श्री ए. के. स्वर्णकार, उपयंत्री, प्र.म.स.वि.प्रा. बैहर
			5	श्री एस. के. दास,, रेंजर (सा.) बिरसा मो. 9424790110
			6	श्री एच. एल., धुवारे, प्र. उद्यान अधीक्षक, हेगी मो. 9425448606
			7	श्री सी. एल. सिरामे, वन परिक्षेत्र अधिकारी, बफर-जॉन समनापुर मो. 9424793018.
			8	श्री बी. डी. खाण्डेकर, डिप्टी रेंजर (सा.) सालेटेकरी
			9	श्री गुलाबसिंह मेरावी, रेंजर (सा.) उकवा मो. 9424790107
			10	श्री भुनेश्वर सिंह, डिप्टी रेंजर (सा.) दमोह
			11	श्री के. आर. उयके, डिप्टी रेंजर (सा.) उकवा
4	बालाघाट	21-1-2010	1	श्री डी. एस.गौड, अनुविभागीय अधिकारी उत्तर उत्पादन वन मण्डल, बालाघाट.
			2	श्री आर. एस. के. राव, सहा. भू-जल विद् रसायन बालाघाट
			3	श्री के. के. गरेवाल, अ.वि.अ., ग्रा. यां., बालाघाट
			4	श्री पी. एस. उइके, सहा. अनुदेशक रेंजर कालेज बालाघाट
			5	श्री दीपसिंह सरयाम, अ.वि.अ. कार्य. यंत्री, लो.नि.वि., बालाघाट
			6	श्री राजीव श्रीवास्तव, अ.वि.अ. कार्य. यंत्री, लो.नि.वि., बालाघाट
			7	श्री ए. पी. पटेल, सहा. प्रबंधक, ग्रा.स. प्राधि. ईकाई 1 बालाघाट
			8	श्री पी. डी. ग्रेवियर, अ.वि.अ. दक्षिण वनमण्डल (सा.) बालाघाट
			9	श्री संजय नेमा, अ.वि.अ. हाइड्रोमेट्रोलाजी बालाघाट मो. 9827115437
			10	श्री देवेन्द्र यादव, परि. अधि. म. बा. वि. बालाघाट मो. 9425834841
			11	श्री आर. के. गजभिये, सहा. यंत्री भारी मशीनरी संभाग बालाघाट मो. 9827986360.
			12	श्री सी. डी. ठाकरे, सहा. यंत्री, जल संसाधन (सर्वे) बालाघाट मो. 9424335837.
			13	श्री प्रदीप गांधी, सहा. यंत्री, रा. सा. परि, बालाघाट
			14	श्री अनिरुद्ध गजबे, अ.वि.अ. वैनगंगा, संभाग बालाघाट
			15	श्री संग्रामसिंह मरावी, सहा. संचा. कृषि बालाघाट
			16	श्री रमेश गोडे, सहा. भू-जल विद् रसायन बालाघाट
5	लालबर्वा	21-1-2010	1	जाम श्री पी. के. सक्सेना, वन परिक्षेत्र अधिकारी लामता परियोजना लालबर्वा मो. 9424795287.
			2	सिहोरा श्री आर. आर. सनोडिया, प्रभारी सहा. यंत्री नरेला लालबर्वा मो. 9424662819.
			3	लालबर्वा श्री एस. एल. शर्मा, वन परिक्षेत्र अधिकारी लालबर्वा मो. 9424790205
			4	बोरी श्री टेकाम, वन परिक्षेत्र अधिकारी उत्पादन लालबर्वा मो.
			5	अमोली श्री मनमोहन सिंह कुसराम, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग लालबर्वा मो. 9406728444.
			6	बिरसोला श्री सुभाष पटेल, अ.वि.अ. बैनगंगा सिंचाई संभाग बालाघाट मो. 9425447509.
			7	खमरिया श्री पी. एल. कोरी, अ.वि.अ. कृषि बालाघाट मो. 9424835648
			8	नैतरा श्री के. जी. बिसेन विकासखण्ड स्रोत समन्वयक लालबर्वा मो. 9425892799.
			9	गरा श्री प्रकाश सूर्यवंशी, अ.वि.अ., पी.एच.ई. उपसंभाग वारासिवनी मो. 9425139853.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	बैहर	21-1-2010	1	डा. आशीष वैद्य, पशु चिकित्सक पशु चिकित्सा विभाग, बैहर
			2	श्री डी.आर. चौरे, सहा. यंत्री लो.स्वा.यां. बैहर
			3	श्री अविनाश जोशी, रेंजर गढ़ी रेंज वन विभाग (कान्हा) रेंज बैहर
			4	श्री एफ. आर. सोढी, रेंजर सूपखार वन विभाग (कान्हा) रेंज बैहर
			5	श्री एस. एस. शिवनकर, सहा. परि. प्रशा. एकी. आदि. वि. बैहर
			6	श्री वाय. के. पारधे, उप वनमंडल अधिकारी, उत्तर उत्पा. बैहर
			7	श्री आर. के. गनवीर, डिप्टी रेंजर वन उकवा
			8	श्री पुरुषोत्तम पाण्डे, डिप्टी रेंजर वन उकवा
7	परसवाड़ा	21-1-2010	1	श्री शिवशंकर पुरी, सहायक भू-जल विद् बालाघाट
			2	श्री आर. आर. बघेल, अ.वि.अ. बंजर नदी परि. मो. 9425821922
			3	डा. पेन्ड्रो, पशु चिकित्सा परसवाड़ा मो. 9424379539
			4	श्री एन. आर. डोंगरे, सहायक यंत्री, लो. स्वा. यां. मो. 9424752599
			5	श्री आर. सी. नागरे, परिक्षेत्र, अधि. पश्चिम वन मो. 9425790175
			6	श्री एस. के. एस., तिवारी, विकासखण्ड अधिकारी, मो. 9424389025
			7	श्री पशरीचा, एस.डी.ओ. वन उकवा मो. 9424790102
			8	श्री ए. एस. मरकाम, डिप्टी रेंजर उकवा मो. 9424999380
			9	श्री आर. के. खानोरकर, उपयंत्री आर.ई.एस. मो. 9424662226
8	वारासिवनी	24-1-2010	1	श्री एम. एस. ठाकुर, अ.वि.अ.ग्रा.यां., सेवा वारासिवनी मो. 9425863143.
			2	श्री दीपक आडे, प्रबंधक सड़क विकास निगम बालाघाट, मो. 9424766465.
			3	श्री एस. सी. सक्सेना, सहायक यंत्री, हाउसिंग बोर्ड बालाघाट मो. 9981934177.
			4	श्री जी. सी. डोंगरे, सहा. संचा. पशु चिकि. सेवायें बालाघाट मो. 9993741899.
			5	श्री एस. के. सोनी, सहा. परि. अधिकारी, जिला पंचायत बालाघाट मो. 9425873417.
			6	श्री आर. के. राय, प्र. उप संचा. मत्स्य विभाग बालाघाट मो. 9926315527.
			7	श्री एन. के. मरावी, संयु. सं. प्रबंधक, लामता प्रोजेक्ट बालाघाट मो. 9424795261.
			8	डा. एस. एस. बिसेन, सहा. संचा. पशु चिकि. सेवायें बालाघाट मो. 9425822087.
			9	श्री एन. बी. भारद्वाज, अ.वि.अ., राजीव सागर परि. कुडवा कालोनी मो. 9423616267.
9	कटंगी	24-1-2010	1	लोहमारा श्री महेन्द्र कुमार कटरे, उपयंत्री, अ.वि.अ.रा.सा.परि.सं.क्र. 3 कटंगी मो. 9424335851.
			2	सिरपुर श्री एस. एल. कठौते, अ.वि.अ. वैनगंगा सिंचाई, उप सं. तिरोड़ी मो. 9893005119.
			3	जाम श्री शेख ताज मो. सहा.य.रो.गा.यो.जन पं. कटंगी. मो. 9425897264.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			4 आगरवाडा	श्री एस. आर. भलावी, अ.वि.अ.रा.सा.परि.उप सं. क्र. 1 कुडवा मो. 9179355357.
			5 खैरलांजी	श्री पी. के. उसरेटे, पशु चिकि. से., बालाघाट मो. 9425850987.
			6 मानेगांव	श्री एस. के. दुबे, सहायक अनुदेशक रेजर कालेज, बालाघाट.
			7 नांदी	श्री देवेन्द्रसिंह ठाकुर, सहा. यंत्री, कटंगी जिला पंचायत, बालाघाट
			8 तिरोडी	श्री जी. बी. मेश्राम, सहा. यंत्री, कार्या. अधि. य. रा.सा.परि. बालाघाट मो. 9329850082.
			9 परसवाडा	श्री एस. के. पाटिल, सहा. यं, लो. स्वा. यां. कटंगी घाट. 9424336183.
			10 सीतापठोर	श्री. एम. ए. अंसारी, अ.वि.अ.रा.सा.परि.सं. क्र. 3 कटंगी मो. 9425724007.
			11 महकेपार	श्री व्ही. के. उपाध्याय, अ.वि.अ.रा.सा.परि. उपसंभाग क्र 4 कुडवा मो. 9425843774, 9893075961.
			12 बोनकट्टा	श्री एफ. के. भीमटे, अ.वि.अ.रा.सा.परि. सं. क्र. 2 तिरोडी मो. 9424613933.
10	खैरलांजी	24-1-2010	1 भेण्डारा	श्री डी. आर. मेश्राम, प्राचार्य शा.उ.मा.वि. आरंभा मो. 9424662721.
			2 घोटी	श्री डी. आर. अहिरवार, सहा. वन संरक्षक कार्या. मुख्य वनसंरक्षक बालाघाट.
			3 खरखडी	श्री एल. आर. लानगे, सहा. यंत्री, रा.ग्रा.रो.गा.यो. ज. पं. खैरलांजी मो. 9425852616.
			4 खैरलांजी	श्री ओ. पी. भारती, प्राचार्य, शा. उत्कृष्ट मा. वि. खैरलांजी मो. 9407069320.
			5 भौरगढ़	श्री एस. डी. विश्वकर्मा, वि. ख. शि. अधिकारी, खैरलांजी मो. 9301493329.
			6 छतेरा	श्री आलोक मिश्रा, खण्ड स्रोत समन्वयक अधिकारी, खैरलांजी मो. 9425139693.
			7 कटोरी	श्री व्ही. के. बंसोड़, प्राचार्य शा.उ.मा.वि., कटोरी मो. 9424764952.
			8 गजपुर	श्री एम. के. दनोलिया, व.कृ.वि. अधिकारी, खैरलांजी मो.
			9 मिरगपुर	श्री व्ही. के. दुबे, वन परिक्षेत्र अधिकारी, खैरलांजी मो.

